

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2016—श्रावण 14, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. बी-8-5-2016-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण, मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी के लिये अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 23 अप्रैल 2016 जारी की गई है. जारी अधिसूचना में मौसम खरीफ 2016 के लिये संलग्न सूची अनुसार पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित फसलों की जिला सिवनी के लिये संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार, पटवारी हल्कों की सूची

मौसम—खरीफ, वर्ष 2016-2017

जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची								
					धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
सिवनी	सिवनी	बण्डोल	1	बखारी	-	-	-	-	मक्का	-			
			4	सागर	-	धान असिंचित	-	-	-	-			
			6	छिन्दग्वार	-	धान असिंचित	-	-	-	मक्का	-		
			8	हिनोतिया	-	-	-	-	-	-	मक्का	-	
			15	मडवा	-	धान असिंचित	-	-	-	-	-		
			16	भाटीवाडा	-	धान असिंचित	-	-	-	-	-		
			18	मारवोडी	-	धान असिंचित	-	-	-	-	-		
			20	कोठिया	-	धान असिंचित	-	-	-	-	-		
			21	बिहिरिया	-	धान असिंचित	-	-	-	-	-		
			24	बांकी	-	धान असिंचित	-	-	-	-	-		
			25	जुरतरा	-	धान असिंचित	-	-	-	-	-		
			26	गोरखपुर कला	-	धान असिंचित	-	-	-	-	-		
			27	अलोनिया	-	धान असिंचित	-	-	-	-	-		
			28	परासिया	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-		
			29	बीसावाडी	-	धान असिंचित	-	-	-	-	-		
			30	कुकवाह	-	धान असिंचित	-	-	-	-	-		
			31	बण्डोल	-	धान असिंचित	-	-	-	-	-		
			32	गरठिया	-	धान असिंचित	-	-	-	-	-		
			33	दिघोरी	-	धान असिंचित	-	-	-	-	-		
					भोमा	42	भाटीवाडा	-	-	-	-	मक्का	-
						43	पौडी	धान सिंचित	-	-	-	मक्का	-
						44	खिरखिरी	धान सिंचित	-	-	-	मक्का	-
						45	महलोन	धान सिंचित	-	-	-	मक्का	-
						47	थावरी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
						48	डोकररांजी	धान सिंचित	-	-	-	मक्का	-
						49	बगलई	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
						50	चंदनवाडा कलां	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			51	चंदनवाडा खुर्द	धान सिंचित	-	-	-	मक्का	-
			53	हिनोतिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			55	डिबटी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			56	छतरपुर	धान सिंचित	-	-	-	मक्का	-
			57	मुडरई	-	-	-	-	मक्का	-
			58	जोरावारी	-	धान असिंचित	-	-	मक्का	-
			59	बम्हनी	-	-	-	-	मक्का	-
			60	खैरी	-	-	-	-	मक्का	-
			62	ढैका	-	-	-	-	मक्का	-
			64	सिंधोडा	धान सिंचित	-	-	-	मक्का	-
			65	डूण्डासिवनी	धान सिंचित	-	-	-	मक्का	-
			66	मानेगांव	धान सिंचित	-	-	-	मक्का	-
			67	मोरडोंगरी	-	-	-	-	मक्का	-
			68	छुई	-	-	-	-	मक्का	-
			69	उमरिया	-	-	-	-	मक्का	-
			70	कान्हीवाडा	-	-	-	-	मक्का	-
			71	चुटका	-	-	-	-	मक्का	-
			73	कामता	-	-	-	-	मक्का	-
			74	कटिया	-	-	-	-	मक्का	-
			76	भौमाटोला	-	-	-	-	मक्का	-
			77	कन्हान पिपरिया	धान सिंचित	-	-	-	मक्का	-
			78	सालीवाडा	-	-	-	-	मक्का	-
			79	छीतापार	धान सिंचित	-	-	-	मक्का	-
			80	झीलपिपरिया	धान सिंचित	-	-	-	मक्का	-
			81	ईदावाडी	-	-	-	-	मक्का	-
			82	उडेपानी	-	-	-	-	मक्का	-
			94	डुगरिया	-	-	-	-	मक्का	-
	सिवनी-1		107	बिठली	-	धान असिंचित	-	-	मक्का	-
			110	डोरलीछतरपुर	-	धान असिंचित	-	-	मक्का	-
			111	मैली	-	-	-	-	मक्का	-
			112	बोरदई	-	-	-	-	मक्का	-
			114	लखनवाडा	-	धान असिंचित	-	-	मक्का	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			115	बम्होडी	-	-	-	-	मक्का	-
			116	संगई	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			117	जैतपुरकलां	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			123	मोहगांव	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			124	कातलबोडी	-	धान असिंचित	-	-	मक्का	-
			125	कारीरात	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			126	भंडारपुर	-	-	-	-	मक्का	-
			127	खमरिया	-	-	-	-	मक्का	-
			128	चांवडी	-	धान असिंचित	-	-	मक्का	-
			129	सीलादेही	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			133	बम्हनी	-	-	-	-	मक्का	-
		सिवनी-2	96	नगझर	-	-	-	-	मक्का	-
			97	बीझाबाडा	-	-	-	-	मक्का	-
			98	लूधरवाडा	-	-	-	-	मक्का	-
			99	सिमरिया	-	धान असिंचित	-	-	मक्का	-
			101	तिघरा	-	-	-	-	मक्का	-
			102	लोनिया	-	-	-	-	मक्का	-
			106	कोहका	-	-	-	-	मक्का	-
सिवनी	केवलारी	केवलारी	16	परासपानी	-	-	-	-	मक्का	-
			17	डोकररांजी	-	-	-	-	मक्का	-
			18	बिनेकी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			19	मलारा	-	-	-	-	मक्का	-
			20	खरसारू	-	-	-	-	मक्का	-
			21	खापा	-	-	-	-	मक्का	-
			22	बन्देली	-	-	-	-	मक्का	-
			23	अहरवाडा	-	-	-	-	मक्का	-
			29	पौगार	-	-	-	-	मक्का	-
			30	रायखेडा	-	-	-	-	मक्का	-
			31	तिन्दुवा	-	-	-	-	मक्का	-
			34	सुन्देरा	-	-	-	-	मक्का	-
			35	गुवारी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			36	खैररांजी	-	-	-	-	मक्का	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			38	सुकतरा	-	-	-	-	मक्का	-
			39	बोधिया	-	-	-	-	मक्का	-
			40	डोभी	-	-	-	-	मक्का	-
			41	केवलारी	-	-	-	-	मक्का	-
			42	अलोनीखापा मा.	-	-	-	-	मक्का	-
			43	झोला	-	-	-	-	मक्का	-
			44	बगलाई	-	-	-	-	मक्का	-
			45	जामुनपानी	-	-	-	-	मक्का	-
			46	अर्जुनझिर	-	-	-	-	मक्का	-
	पलारी		1	डुगरिया	-	-	-	-	मक्का	-
			2	खापा	-	-	-	-	मक्का	-
			3	गुवारी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			4	घंसौर	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			5	चिरचिरा	-	-	-	-	मक्का	-
			6	पिपरिया कलां	-	-	-	-	मक्का	-
			7	मैरा	-	-	-	-	मक्का	-
			8	खैरा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			9	लोपा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			10	मुनगापार	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			11	सरेखा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			12	पांजरा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			13	झगरा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			14	पाथरफोडी मा.	-	-	-	-	मक्का	-
			15	ढुटेरा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	कुरई	सुकतरा	29	लावेसरा	-	-	-	-	मक्का	-
			30	बकोडी	-	-	-	-	मक्का	-
	छपारा	चमारी	2	सुकरी	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			9	देवरीकनां	-	-	-	-	मक्का	-
			11	पौडी	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			12	मुडरई	-	-	-	-	मक्का	-
			14	तिन्सा	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			15	जोगीवाडा	-	धान असिंचित	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			16	ईमली पठार मा.	-	धान असिंचित	-	-	-	-
		छपारा	43	खुरसीपार	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			44	गोरखपुर	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			49	भीमगढ़ रै.	-	धान असिंचित	-	-	-	-
धनौरा	धनौरा		17	धनौरा	-	-	-	-	मक्का	-
			18	साजपानी	-	-	-	-	मक्का	-
बरघाट	बरघाट		5	सिंगपुर	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			55	आमगांव	धान सिंचित	धान असिंचित	-	-	-	-
			56	टिकारी (आमा)	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			77	पनवास	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			91	पांडरवापी	-	धान असिंचित	-	-	-	-
लखनादौन	आदेगांव		61	आदेगांव	-	-	-	-	मक्का	-
			68	पुरवा	-	-	-	-	मक्का	-
	लखनादौन		72	सिरमंगनी	-	-	-	तुअर	मक्का	-
			74	गांगई	-	-	-	-	मक्का	-
			79	सांगई माल	-	-	-	-	मक्का	-
			86	सिहोरा	-	-	-	-	मक्का	-
			92	खमरिया गोसाई	-	-	-	-	मक्का	-
			98	आमई	-	-	-	-	मक्का	-
			105	गनेशगंज	-	-	-	-	मक्का	-
			106	बिजना	-	-	-	-	मक्का	-
			107	रायचौर	-	-	-	-	मक्का	-
			108	बदनौर	-	-	-	-	मक्का	-
			110	बामहनवाडा	-	-	-	-	मक्का	-
घंसौर	घंसौर		67	केदारपुर	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			76	कटिया	-	धान असिंचित	-	-	-	-